



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण


EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY.



सं. 69]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 5, 2001/माघ 16, 1922

No. 69]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 5, 2001/MAGHA 16, 1922

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 फरवरी, 2001

संख्या 48(आर ई-2000)/1997—2002

का.आ. 107(अ).—निर्यात और आयात नीति, 1997—2002 (31-3-2000 तक किए गए संशोधन शामिल) के पैराग्राफ 1.3 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की संख्या 22) की धारा 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्वारा समय-समय पर यथासंशोधित आयात निर्यात मर्दों के आई टी सी (एच एस) मर्दों में वर्गीकरण 1997—2002 (31-8-1998 तक के संशोधन शामिल) में निम्नलिखित संशोधन करती है :—

अधिसूचना सं. 47(आर ई-2000)/1997—2002, दिनांक 21-12-2000 के क्रम में उक्त आई टी सी (एच एस) की अनुसूची-2, तालिका ख में (बंगलौर गुलाबी प्याज और कृष्णापुरम गुलाबी प्याज के अलावा) सभी प्रकार के प्याजों से संबंधित आई टी सी (एच एस) कोड सं. 0703(1) के मर्दे निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा ।

" इसके अलावा, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है निम्नलिखित अधिकरणों के माध्यम से 50,000 मी.टन और प्याज का निर्यात करने की अनुमति दी गई है :—

नेफेड	25000 मीट्रिक टन
एम.एस.ए.एम.बी.	10000 मीट्रिक टन
जी.ए.आई.सी.	5000 मीट्रिक टन
एस.टी.सी.एल.	2500 मीट्रिक टन
ए.पी. राज्य व्यापार निगम	2500 मीट्रिक टन
के.एस.सी.एम.एफ.	2500 मीट्रिक टन
एन.सी.सी.एफ.	2500 मीट्रिक टन

ये अभिकरण प्रत्यक्ष रूप में अथवा पंजीकृत निर्यातकों के माध्यम से पहले जारी की गई अधिसूचना सं 16 (आर ई-2000)/1997—2002, दिनांक 17-5-2000 में यथानिर्धारित शर्तों के अनुसार निर्यात कर सकेंगे।

जारी किए गए प्याज की मात्रा को 31 मार्च, 2001 से पहले निर्यात करना होगा।

इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

[फा. सं. 01/91/162/430/एम 99/पी सी-3]

एन. एल. लखनपाल, महानिदेशक, विदेश व्यापार पदेन, अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th February, 2001

NO. 48 (RE-2000)/1997—2002

S.O. 107 (E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992) read with Paragraph 1.3 of the Export and Import Policy, 1997—2002 (incorporating amendments made upto 31-3-2000), the Central Government hereby makes the following further amendments in the ITC(HS) Classification of Export and Import Items, 1997—2002 (incorporating amendments made upto 31 August, 1998) as amended from time to time, namely :—

2. In continuation of Notification No. 47 (RE-2000)/1997—2002 dated 21-12-2000, the following additions shall be made against the Code No. 0703(1) in Table B of Schedule 2 of the said ITC(HS) relating to "onions (all varieties other than Bangalore Rose onion and Krishnapuram onions)" under the column, 'nature of restriction' :—

"Further, another 50,000 Metric Tonnes of onion is allowed for export through the following agencies as indicated below :—

NAFED	25,000 M. Tonnes.
MSAMB	10,000 M. Tonnes.
GAIC	5,000 M. Tonnes.
STCL	2,500 M. Tonnes.
AP State Trading Corporation	2,500 M. Tonnes.
KSCMF	2,500 M. Tonnes.
NCCF	2,500 M. Tonnes.

3 These agencies shall export directly or through the Registered Exporters on the same terms and condition as laid down in earlier Notification No. 16 (RE-2000)/1997—2002 dated 17-5-2000.

4 The quantity of onion released as above shall be exported before 31st March, 2001.

5 This issues in Public interest.

[F. No. 01/91/162/430/AM'99/PC.-III]

N. L. LAKHANPAL, Director General of Foreign Trade and Ex-Officio Addl. Secy.